



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 01 नवम्बर, 2024 / 10 कार्तिक, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तिलक राज पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, गांव व डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कन्दला, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4266/2024 दिनांक 16-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/17450, दिनांक 13-09-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड जिसमें आवेदक तिलक राज पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, गांव व डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक तिलक राज पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, गांव व डाकघर कन्दला का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 30-09-2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि तिलक राज पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, गांव व डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 10-08-1990 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूत्र में आवेदक तिलक राज पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, गांव व डाकघर कन्दला की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव कन्दला को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

आशा पुत्री लक्षमण, निवासी मुहल्ला/गांव खडियार, डा0 बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2024/2024, दिनांक 06-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-7759, दिनांक 02-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया आशा पुत्री लक्षमण, निवासी मुहल्ला/गांव खडियार, डा0 बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1974 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बरौर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरौर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया आशा पुत्री लक्षमण, निवासी मुहल्ला/गांव खडियार, डा0 बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1974 को ग्राम पंचायत बरौर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह अस्सालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1974 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

शकुंतला पुत्री जलो राम, निवासी मुहल्ला/गांव फाटी, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2484/2024, दिनांक 05-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11075, दिनांक 31-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया शकुंतला पुत्री जलो राम, निवासी मुहल्ला/गांव फाटी, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 08-04-1969 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कोहलडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोहलडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया शकुंतला पुत्री जलो राम, निवासी मुहल्ला/गांव फाटी, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 08-04-1969 को ग्राम पंचायत कोहलडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 08-04-1969 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

हरदेऊ पुत्र नौरंग, निवासी मुहल्ला/गांव परेल, डा0 सुलतानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3289/2024, दिनांक 16-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-14981, दिनांक 16-08-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी हरदेऊ पुत्र नौरंग, निवासी मुहल्ला/गांव परेल, डा0 सुलतानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 04-05-1988 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत उदयपुर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत उदयपुर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी हरदेऊ पुत्र नौरंग, निवासी मुहल्ला/गांव परेल, डा0 सुलतानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 04-05-1988 को ग्राम पंचायत उदयपुर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 04-05-1988 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

कमला देवी पुत्री मचलू, निवासी मुहल्ला/गांव डुघा सार, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत गुवाड, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4082/2024, दिनांक 06-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-17026, दिनांक 05-09-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया कमला देवी पुत्री मचलू, निवासी मुहल्ला/गांव डुघा सार, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 28-05-1979 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत गुवाड के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गुवाड के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया कमला देवी पुत्री मचलू, निवासी मुहल्ला/गांव डुघा सार, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 28-05-1979 को ग्राम पंचायत गुवाड के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 28-05-1979 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

लाम्बी पुत्री श्रीधर, निवासी मुहल्ला/गांव रोणी, डा० कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4083/2024, दिनांक 06-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-17027, दिनांक 05-09-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया लाम्बी पुत्री श्रीधर, निवासी मुहल्ला/गांव रोणी, डा० कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1975 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कीडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया लाम्बी पुत्री श्रीधर, निवासी मुहल्ला/गांव रोणी, डा० कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1975 को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1975 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

रोहित पुत्र नरेश, निवासी मुहल्ला/गांव प्रयुगंल, डा० पलूही, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कैला, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2227/2024, दिनांक 20-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-10440, दिनांक 18-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी रोहित पुत्र नरेश, निवासी मुहल्ला/गांव प्रयुगंल, डा0 पलूही, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 23-06-2011 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कैला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कैला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रोहित पुत्र नरेश, निवासी मुहल्ला/गांव प्रयुगंल, डा0 पलूही, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 23-06-2011 को ग्राम पंचायत कैला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह अस्सालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 23-06-2011 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

सीमा देवी पुत्री देश राज, निवासी मुहल्ला/गांव घराणू, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2858/2024, दिनांक 27-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11841, दिनांक 27-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया सीमा देवी पुत्री देश राज, निवासी मुहल्ला/गांव घराणू, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि

02-04-1982 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कोहलडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोहलडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सीमा देवी पुत्री देश राज, निवासी मुहल्ला/गांव घराणू, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 02-04-1982 को ग्राम पंचायत कोहलडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 02-04-1982 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

अनिता देवी पुत्री मान सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव चम्बी, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1721/2024, दिनांक 24-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9048, दिनांक 19-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया अनिता देवी पुत्री मान सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव चम्बी, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 03-06-1971 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत साच के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत साच के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया अनिता देवी पुत्री मान सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव चम्बी, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 03-06-1971 को ग्राम पंचायत साच के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के



भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 03-06-1971 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

पम्मी पुत्री दितू, निवासी मुहल्ला/गांव मकलेली, डा0 साहो पधर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत राजिंडू, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2280/2024, दिनांक 24-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-10443, दिनांक 16-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया पम्मी पुत्री दितू, निवासी मुहल्ला/गांव मकलेली, डा0 साहो पधर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 21-06-1975 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत राजिंडू के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत राजिंडू के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया पम्मी पुत्री दितू, निवासी मुहल्ला/गांव मकलेली, डा0 साहो पधर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 21-06-1975 को ग्राम पंचायत राजिंडू के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 21-06-1975 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

लाल सिंह पुत्र टिहरू, निवासी मुहल्ला/गांव दलेई, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2552/2024, दिनांक 10-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9470, दिनांक 27-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी लाल सिंह पुत्र टिहरू, निवासी मुहल्ला/गांव दलेई, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 08-10-1963 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कीडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी लाल सिंह पुत्र टिहरू, निवासी मुहल्ला/गांव दलेई, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 08-10-1963 को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 08-10-1963 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

करतार कौर पत्नी ज्ञान चन्द, निवासी मुहल्ला/गांव ओबडी, डा0 सुलतानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4331/2024, दिनांक 19-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-17435, दिनांक 13-09-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें करतार कौर पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी मुहल्ला/गांव ओबडी, डा0 सुलतानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी माता की मृत्यु तिथि 07-07-2017 किन्हीं कारणों से नगर परिषद् चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी माता की मृत्यु तिथि को नगर परिषद् चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि करतार कौर पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी मुहल्ला/गांव ओबडी, डा0 सुलतानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की माता की मृत्यु तिथि 07-07-2017 किन्हीं कारणों से नगर परिषद् चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि 07-07-2017 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री दत्त राम, निवासी रोपा, डा0 भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)। प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र नगर परिषद् सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री दत्त राम, निवासी रोपा, डा0 भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म

दिनांक 01-01-1974 को निवासी रोपा, डा0 भोजपुर में हुआ है परन्तु नगर परिषद सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि को नगर परिषद सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2024 को मुकर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)**

शीर्षक :

श्री नरोतम पुत्र श्री ठाकरु, निवासी चौक, डा0 महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)  
... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ... प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत चौक, तहसील सुन्दरनगर में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

श्री नरोतम पुत्र श्री ठाकरु, निवासी चौक, डा0 महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी मृत्यु दिनांक 03-07-1988 को निवासी चौक, डा0 महादेव में हुई है परन्तु ग्राम पंचायत चौक, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत चौक, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2024 को मुकर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 01-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)**

मिसल नं0 : 42 / 2024

तारीख मजरूआ : 20-09-2024

तारीख पेशी : 05-11-2024

सपना देवी पुत्री श्री ज्ञान चन्द, गांव धनोग, डा0 नसलोह, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म तिथि दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र/मुश्री मुनादी जेर धारा 13/3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1669.

सपना देवी पुत्री श्री ज्ञान चन्द, गांव धनोग, डा0 नसलोह, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मैं उपरोक्त पते की रहने वाली हूं तथा मेरे पुत्र रोहित का जन्म ग्राम पंचायत नसलोह में दिनांक 08-06-2015 को मेरे गांव धनोग, डा0 नसलोह में घर पर हुआ है पर अज्ञानतावश/अनजाने में अपने पुत्र रोहित की जन्म तिथि 08-06-2015 को ग्राम पंचायत नसलोह के रिकार्ड में दर्ज न करा सकी हूं। जिसे अब दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थिया के पुत्र रोहित पुत्र श्रीमती सपना देवी पुत्री श्री ज्ञान चन्द, गांव धनोग, डा0 नसलोह, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 08-06-2015 के दर्ज करने बारे आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत नसलोह के रिकार्ड में दर्ज किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक रूप से अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 05-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत नसलोह को रोहित पुत्र श्रीमती सपना देवी की जन्म तिथि 08-06-2015 को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 20-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)**

मिसल नं0 : 43 / 2024

तारीख मजरूआ : 20-09-2024

तारीख पेशी : 05-11-2024

सपना देवी पुत्री श्री ज्ञान चन्द, गांव धनोग, डा0 नसलोह, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म तिथि दर्ज करने बारे इशतहार समाचार पत्र/मुश्री मुनादी जेर धारा 13/3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1669.

सपना देवी पुत्री श्री ज्ञान चन्द, गांव धनोग, डा0 नसलोह, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मैं उपरोक्त पते की रहने वाली हूं तथा मेरी पुत्री नैना का जन्म ग्राम पंचायत नसलोह में दिनांक 21-02-2017 को मेरे गांव धनोग, डा0 नसलोह में घर पर हुआ है पर अज्ञानतावश/अनजाने में अपनी पुत्री नैना की जन्म तिथि 21-02-2017 को ग्राम पंचायत नसलोह के रिकार्ड में दर्ज न करा सकी हूं। जिसे अब दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थिया की पुत्री नैना पुत्री श्रीमती सपना देवी पुत्री श्री ज्ञान चन्द, गांव धनोग, डा0 नसलोह, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 21-02-2017 के दर्ज करने बारे आम जनता को गजट राजपत्र, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत नसलोह के रिकार्ड में दर्ज किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक रूप से अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 05-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत नसलोह को नैना पुत्री श्रीमती सपना देवी की जन्म तिथि 21-02-2017 को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 20-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

जुध्या देवी पुत्री कुन्दन लाल, निवासी छपाणू, डा0 व तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)  
बनाम

आम जनता

इशतहार मुश्री मुनादी/राजपत्र हिमाचल प्रदेश

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जुध्या देवी पुत्री कुन्दन लाल, निवासी छपाणू, डा0 व तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अप्राप्यता प्रमाण-पत्र स्थानीय पंजीयक/जन्म प्रमाण-पत्र प्रधान ग्राम पंचायत प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 25-09-1967 को हुआ है। किन्हीं कारणवश उसका जन्म ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सका है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तिथि 25-09-1967 को दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन पेशी दिनांक 07-11-2024 को प्रातः 10.00

बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर हाजरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि दर्ज करके आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)**

हाकम सिंह पुत्र प्रकाश सिंह, गांव सेउ, डा0 खरवाड, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनत

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

यह दरखास्त श्री हाकम सिंह पुत्र प्रकाश सिंह, गांव सेउ, डा0 खरवाड, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस आशय से गुजार रखी है कि उसका जन्म दिनांक 09-05-1947 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत नंधन के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज न है। प्रार्थी ग्राम पंचायत नंधन के अभिलेख में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नंधन के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर हो तो वह दिनांक 05-11-2024 या इससे पूर्व असालतन/वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील दुलैहड़,  
जिला रुना (हि0प्र0)**

राज कुमारी पुत्री रामेश कुमार, निवासी महाल दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

मुश्री मुनादी नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे इशतहार समाचार पत्र/राजपत्र।

राज कुमारी पुत्री रामेश कुमार, निवासी महाल दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया के पति का नाम रामेश कुमार पुत्र मलावा है। लेकिन उसका नाम राजस्व कागजात के महाल दुलैहड़ उपरला में राज कुमार पुत्र मलावा दर्ज है। जो कि गलत दर्ज हुआ है। इसलिए प्रार्थिया के पति का नाम राजस्व अभिलेख के महाल दुलैहड़ उपरला में राज कुमार उर्फ रामेश कुमार पुत्र मलावा दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में नाम दर्ज करने बारे आम जनता को इशतहार राजपत्र/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 05-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इशतहार आज दिनांक 15-10-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समारहता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समारहता (द्वितीय श्रेणी), दुलैहड़,  
जिला ऊना (हि0प्र0)

इशतहार मुश्री मुनादी जेर धारा 23 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम,1954.

मुकद्दमा नं0 : 30, 31 / ना0तह0दु0 / 2024

राम कुमार पुत्र महां सिंह, निवासी भडियारा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0

वादी।

बनाम

श्रीमती निर्शला देवी पुत्री सुरजीत सिंह, निवासी भडियारा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 कि मृत्यु होने के कारण उसके जायज वारसान की सूची निम्न प्रकार से है:-

(क) अकाश राजपूत पुत्र निर्शला देवी पुत्री सुरजीत सिंह, (ख) सूरज राजपूत पुत्र निर्शला देवी पुत्री सुरजीत सिंह, (ग) रिकल राजपूत पुत्री निर्शला देवी पुत्री सुरजीत सिंह, (घ) किरण पति निर्शला देवी पुत्री सुरजीत सिंह, निवासी भडियारा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0। प्रतिवादी/प्रतिवादीगण।

तकसीम भूमि आराजी 00-96-84 हैक्ट, खेवट नं0 245, खतौनी नं0 293, कित्ता 19 जमाबन्दी वर्ष 2017-18 स्थित महाल व भडियारा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।



तकसीम भूमि आराजी 00-03-46 हैक्ट, खेवट नं0 236, खतौनी नं0 284, खसरा नं0 2819 जमाबन्दी वर्ष 2017-18 स्थित महाल व भडियारा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा अनुवानवाला में इस न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है इसलिए आपको निर्देश दिये जाते हैं कि देह हजा में बजरिया मुश्री मुनादी समाचार पत्र के द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित करें कि वे मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 07-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित हों। बावजूद मुश्री मुनादी हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 10-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),  
दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 03 / NTB / Mis. / 2024

तारीख पेशी : 28-11-2024

सुरिन्द्र सिंह

बनाम

आम जनता

विषय-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

सुरिन्द्र सिंह पुत्र गुरवतन सिंह, निवासी House No. 54, Shivalik Avenue, Phase 1B, Naya Nangal, P.O. Naya Nangal, Tehsil Nangal, Distt. Rupnagar (PB) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 02-08-1970 को महाल घरवासड़ा, उप-तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना, हि0 प्र0 में हुआ था और अज्ञानतावश उसके माता-पिता द्वारा ग्राम पंचायत थहड़ा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी जन्म तिथि दर्ज न करवाई जा सकी है, लिहाजा जन्म तिथि 02-08-1970 (स्कूल त्याग प्रमाण-पत्र अनुसार) को दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत थहड़ा, उप-तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में प्रार्थी की जन्म तिथि 02-08-1970 को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 28-11-2024 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 15-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

---

**In the Court of Executive Magistrate, Amb, Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.)**

JC-103614H Ex-Hony Sub Maj. Bal Krishan Sharma, age 78 years s/o Late Sh. Devi Chand Sharma, r/o Village Nari & P.O. Chintpurni, Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.) . . Applicant.

*Versus*

General Public

Application under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969, JC-103614H Ex-Hony Sub Maj Bal Krishan Sharma, age 78 years s/o Late Sh. Devi Chand Sharma, r/o Village Nari & P.O. Chintpurni, Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.) has preferred an application to the undersigned for correction of name and date of birth of my daughter in the records of army documents mistakenly and entered wrongly be corrected as Monika and date of birth as 02 Mar. 1984 instead of Monu Sharma and date of birth as 02 Mar. 1985 in above address in the record of Army.

Therefore, through this proclamation the general public is hereby informed any person having any objection for entry of name and date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette no objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand seal of the court on this 24th day of October 2024.

Seal.

Sd/-  
*Executive Magistrate,*  
*Amb, Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.).*